

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03012024-251095
SG-DL-E-03012024-251095असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02]	दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 2024/पौष 11, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 359
No. 02]	DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 2024/PAUSHA 11, 1945	[N. C. T. D. No. 359

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय उद्योग आयुक्त

अधिसूचना

दिल्ली, 1 जनवरी, 2024

फा. सं.1/सीआई/ओएसडी/सीईटीपी का स्थानांतरण/2021-22/4570.83.—दिल्ली सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र अधिनियम, 2000 (2000 का दिल्ली अधिनियम 7) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 28.01.2010 की अधिसूचना सं० फा० 1/जेसीआई/सीईटीपी/बैठक/2009/38 तथा दिनांक 27.02.2014 की अधिसूचना सं० फा० 1/जेसीआई/सीईटीपी/बैठक/2009/30/232 के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 11 सीईटीपी के संबंध में सीईटीपी सोसाइटियों (दिल्ली सीईटीपी अधिनियम 2000 की धारा 4 के साथ पठित दिल्ली सीईटीपी नियमावली, 2001 के खंड 3 में परिभाषित) द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निष्पादन करने हेतु समस्त शक्तियों को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को सौंपते हैं।

दिल्ली जल बोर्ड शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से “जैसा है जहां है” के आधार पर संबंधित सीईटीपी सोसाइटियों के अध्यक्ष/महासचिव से आरईपीएस एवं राइजिंग मेन्स के साथ-साथ 11 सीईटीपी को अपने अधीन एवं नियंत्रण में लेगा।

दिल्ली जल बोर्ड डीएसआईआईडीसी द्वारा अनुरक्षित संबद्ध आरईपीएस एवं राइजिंग मेन्स का प्रभार भी लेगा।

दिनांक 28.01.2010 तथा दिनांक 27.02.2014 की राजपत्र अधिसूचनाओं द्वारा दिल्ली सीईटीपी अधिनियम, 2000 की अनुसूची-1 में उल्लिखित 11 सीईटीपी के विवरण निम्नानुसार हैं :

1. ओखला सीईटीपी
2. झिलमिल सीईटीपी
3. लॉरेंस रोड सीईटीपी
4. जी0टी0 करनाल रोड सीईटीपी
5. एसएमए/एसएसआई/राजे"वरी सीईटीपी
6. मायापुरी सीईटीपी
7. उद्योग नगर सीईटीपी
8. मंगोल पुरी सीईटीपी
9. बादली सीईटीपी
10. वजीरपुर सीईटीपी
11. नारायणा सीईटीपी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल

के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,
मनीष कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (उद्योग)

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INDUSTRIES

NOTIFICATION

Delhi, the 1st January, 2024

No. F 1/CI/OSD/Transfer of CETPs/2021-22/4570-83.—In exercise of powers conferred by Section 14 of the Delhi Common Effluent Treatment Plants Act, 2000 (Delhi Act 7 of 2000) and in supersession of Notification of this Govt. vide No.F.1/JCI/CETP/Meeting/2009/38 dated 28.01.2010 & F.1/JCI/CETP/Meeting /2009/30/232 dated 27.02.2014, the Lieutenant Governor of Delhi, Govt. of National Capital Territory of Delhi hereby assigns all powers to perform the functions exercisable by the CETP societies (defined in Section 4 of Delhi CETP Act, 2000 read with Clause 3 of Delhi CETP Rules, 2001) to the Delhi Jal Board (DJB) in respect of 11 CETPs specified in this notification.

Delhi Jal Board shall take possession and control of the 11 CETPs along with REPS & Rising Mains, from the President/General Secretary of the respective CETP societies on "As is Where is" basis with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Delhi Jal Board shall also take charge of the connected REPS & Rising Mains, being maintained by the DSIIDC.

Details of 11 CETPs mentioned in Schedule-I of the Delhi CETP Act, 2000 vide Gazette Notifications dated 28.01.2010 and 27.02.2014, are as under:

1. Okhla CETP
2. Jhilmil CETP
3. Lawrence Road CETP
4. G.T. Karnal Road CETP
5. SMA/SSI/Rajeshwari CETP
6. Maya Puri CETP
7. Udyog Nagar CETP
8. Mangol Puri CETP
9. Badli CETP
10. Wazirpur CETP
11. Naraina CETP

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,
MANISH KUMAR GUPTA, Addl. Chief Secy. (Industries)